Exported On\*

2023/07/24 12:19:26

Title\*

Question Paper Answer Key

OES Exam\*

MIL126 / MAHAJYOTI MILITARY SERVICES CET 2023 / Completed / 2023-07-09

| Question Description | By using a map you can find |
|----------------------|-----------------------------|
| А                    | Distance<br>द्री            |
| В                    | Direction<br>বিসা           |
| С                    | Altitude<br>ऊंचाई           |
| D                    | All of these<br>ये सभी      |
| Correct Answer       | D                           |
| Marks                | 2                           |

| Question Description | The first lady Governor of Independent India was<br>स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थीं |
|----------------------|--|
| Α                    | Vijayalaxmi Pandit<br>विजयलक्ष्मी पंडित  |
| В                    | Sheela Dixit<br>शीला दीक्षित   |
| С                    | Sarojini Naidu<br>सरोजिनी नायडू  |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई भी नहीं  |
| Correct Answer       | C  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | 'Each one Teach one' programme relates to<br>'हर एक एक को सिखाओ' कार्यक्रम किससे से संबंधित है? |
|----------------------|---|
| A                    | adult education<br>प्रौढ़ शिक्षा  |
| В                    | Regular education<br>नियमित शिक्षा  |
| С                    | Non – formal education<br>अनौपचारिक शिक्षा  |
| D                    | Awakened citizen<br>जागृत नागरिक  |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | When was 'Shimla Pact' between India and Pakistan inked<br>भारत और पाकिस्तान के बीच 'शिमला समझौता' कब हुआ था? |
|----------------------|---|
| Α                    | 1955<br>1955  |
| В                    | 1971<br>1971  |
| С                    | 1962<br>1962  |
| D                    | 1972<br>1972  |
| Correct Answer       | D   |
| Marks                | 2   |

| Question Description  | What is Arihant?<br>अहिंत क्या है? |
|-----------------------|------------------------------------|
| A                     | Fighter Aircraft<br>लडाकू विमान    |
| В                     | Submarine<br>पनडुब्बी              |
| С                     | Tank<br>टेंक                       |
| D                     | Vessel<br>जलयान                    |
| <b>Correct Answer</b> | B B                                |
| Marks                 | 2                                  |

| Question Description | India's only sail training ship<br>भारत का एकमात्र पाल प्रशिक्षण जहाज है |
|----------------------|--|
| Α                    | INS Tarangini<br>आईएनएस तरंगिनी  |
| В                    | INS Virat<br>आईएनएस विराट  |
| С                    | INS Garuda<br>आईएनएस गरुड़   |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई भी नहीं                                    |
| Correct Answer       | A A  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Which is the largest desert in the world?<br>दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है? |
|----------------------|---|
| Α                    | Sahara Desert<br>सहारा रेगिस्तान  |
| В                    | Gobi Desert<br>गोबी रेगिस्तान   |
| С                    | Thar Desert<br>थार रेगिस्तान  |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई नहीं  |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| <b>Question Description</b> | Where is Manas Sanctuary situated? |
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             | मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है?   |
|                             |                                    |
| Α                           | Assam                              |
|                             | असोम                               |
|                             |                                    |
| В                           | Keral                              |
|                             | केरल<br>-                          |
|                             |                                    |
| С                           | Madhya Pradesh                     |
|                             | मध्य प्रदेश                        |
|                             |                                    |
| D                           | Zarkhand                           |
|                             | झारखण्ड                            |
|                             | चारस॰७                             |
| Comment American            |                                    |
| Correct Answer              | A                                  |
| Marks                       | 2                                  |
|                             |                                    |

| Question Description | Where was Mahavir Swami, the 24th and last Tirthankar of Jainism, born?<br>जैन धर्म के 24वें एवं अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ? |
|----------------------|--|
| Α                    | Sarnath<br>सारनाथ  |
| В                    | Kundalgram<br>कुण्डलग्राम  |
| С                    | Lumbini<br>लुम्बिनी  |
| D                    | Nalanda<br>नालन्दा   |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Who was the first Indian to be appointed President of the International Court of Justice<br>अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? |
|----------------------|--|
| Α                    | Nagendra Singh<br>नागेन्द्र सिंह   |
| В                    | Bhagat Singh<br>भगत सिंह   |
| С                    | Dr Hardayal<br>डॉ. हरदयाल  |
| D                    | None of these<br>इनमे से कोई नहीं  |
| Correct Answer       | A  |
| Marks                | 2  |

| Ougation Description | The second hottle of Devinet took wheel hetween  |
|----------------------|--|
| Question Description | The second battle of Panipat took place between<br>पानीपत की दूसरी लड़ाई किस-किस के बीच में हुई- |
| A                    | Between Akbar and Hemu<br>अकबर और हेमू के बीच  |
| В                    | Between Humayun and Rana Sanga<br>हुमायँ और राणा सांगा   |
| С                    | Between Maharana Pratap and Akbar<br>महाराणा प्रताप और अकबर                                      |
| D                    | Between Babar and Rana Sanga<br>बाबर और राणा सांगा   |
| Correct Answer       | A  |
| Marks                | 2  |

| <b>Question Description</b> | Schedule that deals with official languages of India<br>अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है |
|-----------------------------|--|
| A                           | 9th<br>9 वीं   |
| В                           | 11th<br>11 वीं   |
| С                           | 8th<br>8 वीं   |
| D                           | None of these<br>इनमें से कोई भी नहीं  |
| Correct Answer              | С  |
| Marks                       | 2  |

| Question Description | Number of commands in Indian Army ?<br>भारतीय सेना में कमांड की संख्या ? |
|----------------------|--|
| Α                    | 62<br>62   |
| В                    | 7<br>7   |
| С                    | 6<br>6   |
| D                    | 10<br>10   |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | The full form of 'UNDP' is 'UNDP' का पूर्ण रूप है                            |
|----------------------|--|
| Α                    | United Nations Development Program<br>युनाइटेड नेश्नन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम |
| В                    | United National Democratic Press<br>युनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रेस         |
| С                    | Union of North Developing Province<br>यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविन्स     |
| D                    | Arab National Drilling Petroleum<br>अरब नेशनल ड्रिलिंग पेट्रोलियम            |
| Correct Answer       | A  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Who wrote the book 'Anand Math'?<br>'आनंद मठ' पुस्तक किसने लिखी है? |
|----------------------|---|
| A                    | Bankim Chandra Chattopadhyay<br>बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय            |
| В                    | Abul Fazal<br>अबुल फजल  |
| С                    | Kalidas<br>कालिदास  |
| D                    | Sharat Chandra Chatterjee<br>शरत चंद्र चटर्जी                       |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | What is the time period (T) of one second pendulum?<br>एक सेकण्ड पेण्डुलम का समय आवर्तकाल (T) कितना होता है? |
|----------------------|--|
| Α                    | 1 second<br>1 सेकण्ड   |
| В                    | 2 seconds<br>2 सेकण्ड  |
| С                    | 3 seconds<br>3 सेकण्ड  |
| D                    | 4 seconds<br>4 सेकण्ड  |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | is used in thermometer to show the temperature तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में का प्रयोग किया जाता है। |
|----------------------|---|
| A                    | Lead<br>लੇड   |
| В                    | Mercury<br>पारा   |
| С                    | Silver<br>चांदी   |
| D                    | None of these<br>इनमे से कोई नहीं   |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Shortsightedness is due to<br>अदूरदर्शिता किसके कारण होती है? |
|----------------------|---|
| Α                    | shifting of the iris<br>आईस्सि का स्थानांतरण                  |
| В                    | weaker muscles<br>कमजोर मांसपेशियों                           |
| С                    | elongation of eye balls<br>आंखों की गेंदों का बढ़ाव           |
| D                    | weakening of the retina<br>रेटिना का कमजोर होना               |
| Correct Answer       | D   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Which of the following controls coordinates activities of human body?<br>निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण मानव शरीर की गतिविधियों का समन्वय करता है? |
|----------------------|---|
| Α                    | Hormones<br>हार्मोन   |
| В                    | Foramen<br>फोरमैन   |
| С                    | Glands<br>ग्रंथियां   |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई भी नहीं   |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Which law was stated by Ernst Haeckel<br>इनमे से कौन सा नियम अन्स्ट्ट हैकल द्वारा दिया गया था |
|----------------------|---|
| A                    | Law of inheritance<br>वंशागति का नियम   |
| В                    | The biogenetic law<br>बायोजेनेटिक का नियम   |
| С                    | Law of dominance<br>प्रभुत्व का नियम  |
| D                    | Law of segregation<br>पृथक्करण का नियम  |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Water has maximum density at<br>पानी का अधिकतम घनत्व है |
|----------------------|---|
| A                    | 0 degree C<br>0 डिग्री सेल्सियस                         |
| В                    | 4 degree C<br>4 डिग्री सेल्सियस                         |
| С                    | 100 degree C<br>100 डिग्री सेल्प्सियस                   |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई नहीं                      |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | On adding acid, litmus paper becomes<br>अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है - |
|----------------------|---|
| A                    | Yellow to Green<br>पीले से हरा  |
| В                    | Blue to Red<br>नीले से लाल  |
| С                    | Red to Blue<br>लाल से नीला  |
| D                    | No Changes<br>कोई बदलाव नहीं  |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| <b>Question Description</b> | The functional unit of kidney is-<br>गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है- |
|-----------------------------|--|
| A                           | Lever<br>लीवर  |
| В                           | Nephron<br>नेफ्रॉन   |
| С                           | Diaphragm<br>डायाफ्रॉम   |
| D                           | None of these<br>इनमें से कोई नहीं                                 |
| Correct Answer              | В  |
| Marks                       | 2  |

| Question Description | Laparoscopy is connected with<br>लैप्रोस्कोपीके साथ जुड़ा हुआ है |
|----------------------|--|
| Α                    | Radars<br>रडार   |
| В                    | Science of tissues<br>ऊतकों का विज्ञान                           |
| С                    | Study of laser beams<br>लेजर बीम का अध्ययन                       |
| D                    | Gynecological operations<br>स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन             |
| Correct Answer       | D  |
| Marks                | 2  |

| <b>Question Description</b> | Which of the following is not a compound? |
|-----------------------------|---|
|                             | निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है?   |
| A                           | Fe  |
|                             | Fe  |
| В                           | NaCl                                      |
|                             | NaCl                                      |
| С                           | $H_2SO_4$                                 |
|                             | $ m H_2SO_4$                              |
| D                           | CaCO <sub>3</sub>                         |
|                             | CaCO <sub>3</sub>                         |
| Correct Answer              | A   |
| Marks                       | 2   |

| Question Description | Which of the following set of animals are cold blooded<br>इनमे से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता हैं? |
|----------------------|---|
| Α                    | Crow, Earthworm, Frog<br>क्रो, केंचुआ, मेंढक  |
| В                    | Frog, Crow, Whale<br>मेंढक, क्रो, व्हेल   |
| С                    | Penguin, Salamander, Monkey<br>पेंगुइन, सेलमेन्डर, बिंदर  |
| D                    | Rohu, Frog, Cobra<br>रोहू, मेंढक, कोबरा   |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | What is the unit of power of lens?<br>लैंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है - |
|----------------------|---|
| Α                    | Diopter<br>डायाप्टर   |
| В                    | Henry<br>हेनरी  |
| С                    | Hertz<br>हर्टज़   |
| D                    | Weber<br>वेबर   |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | A mixture of metal dissolved in mercury is known as<br>पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं |
|----------------------|---|
| Α                    | Amalgam<br>पारदधातु मिश्रण  |
| В                    | Alloy<br>দিশ্বান্ত  |
| С                    | Mercury salt<br>पारा नमक  |
| D                    | Solution<br>विलयन   |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Solar Eclipse occurs when<br>सूर्यग्रहण होता है जब                         |
|----------------------|--|
| A                    | Earth comes between sun and moon<br>पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है |
| В                    | Moon comes between sun and earth<br>चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है |
| С                    | During crisis<br>संकट के दौरान   |
| D                    | Sun comes between moon and earth<br>सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है |
| Correct Answer       | A  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Which of the following organelles is called the powerhouse of the cell ?<br>निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है? |
|----------------------|---|
| A                    | Ribosome<br>राइबोसोम  |
| В                    | Mitochondria<br>माइटोकॉन्ड्रिया   |
| С                    | Lysosome<br>लाइसोसोम  |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई भी नहीं   |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | If 8 men can do a piece of work in 15 days, then in how many days could 20 men do the same work यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे? |
|----------------------|--|
| Α                    | 7 days<br>7 दिन  |
| В                    | 8 days<br>8 दिन  |
| С                    | 10 days<br>दस दिन  |
| D                    | None of these<br>इनमें से कोई नहीं   |
| Correct Answer       | D  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | If $\sin \theta / \cos \theta = 1$ then $\theta = \dots$ ? |
|----------------------|--|
|                      | यदि Sin / Cos θ = 1 तो 1 =?                                |
| Α                    | 60   |
|                      | 60   |
| В                    | 30   |
|                      | 30   |
| С                    | 45   |
|                      | 45   |
| D                    | 90   |
|                      | 90   |
| Correct Answer       | C  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | If $0 \le \theta \le 90^\circ$ , then which of the value increases as $\theta$ increases? यदि $0 \le \theta \le 90^\circ$ हो, तो $\theta$ के बढ़ने से किसका मान बढ़ता है? |
|----------------------|---|
| A                    | $\sin\theta$ $\sin\theta$   |
| В                    | $tan\theta$ $tan\theta$   |
| С                    | $\sec\theta$ $\sec\theta$   |
| D                    | all of these<br>ये सभी  |
| Correct Answer       | D   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | The radius of a wheel is 42 cm. Is . Find the distance in 400 rounds? (in m) एक पहिए की त्रिज्या 42 सेमी. है। 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करो? (मी. में) |
|----------------------|---|
| A                    | 1056<br>1056  |
| В                    | 900<br>900  |
| С                    | 896<br>896  |
| D                    | 1210<br>1210  |
| Correct Answer       | A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Convert 0.9075 to a simple fraction. 0.9075 को साधारण भिन्न में बदलें। |
|----------------------|--|
| Α                    | 363/100  |
| В                    | 363/400  |
| С                    | 363/200  |
| D                    | 363/500  |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Complete the serial number – 3, 5, 9, 15, 23, |
|----------------------|---|
| А                    | 30<br>30                                      |
| В                    | 33<br>33                                      |
| С                    | 48<br>48                                      |
| D                    | 54<br>54                                      |
| Correct Answer       | B   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | If a woman gets an item for Rs.330. If there is a profit of 20% on selling it, then find the cost of the article? यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रु. में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए? |
|----------------------|---|
| Α                    | 200<br>200  |
| В                    | 275<br>275  |
| С                    | 250<br>250  |
| D                    | 300<br>300  |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| Question Description  | Find the value of $1/2 + 1/4$         |
|-----------------------|---------------------------------------|
|                       | $1/2 + \frac{1}{4}$ का मान क्या होगा? |
|                       |                                       |
| A                     | 3/4                                   |
|                       | 3/4                                   |
|                       |                                       |
| В                     | 3/2                                   |
|                       | 3/2                                   |
|                       |                                       |
| С                     | 5/4                                   |
| o e                   | 5/4                                   |
|                       | 3/4                                   |
| _                     |                                       |
| D                     | 1/8                                   |
|                       | 1/8                                   |
|                       |                                       |
| <b>Correct Answer</b> | A A                                   |
| Marks                 | 2                                     |
|                       |                                       |

| Question Description | If $(0.4z - 3) = -7/5$ . Find the value of z $(1.5z + 9)$  |
|----------------------|--|
|                      | यदि $(0.4z-3) = -7/5$ . $z$ का मान ज्ञात कीजिये $(1.5z+9)$ |
| Α                    | 98/25  |
|                      | 98/25  |
| В                    | 26/35  |
|                      | 26/35  |
| С                    | 96/25  |
|                      | 96/25  |
| D                    | None of these  |
|                      | इनमें से कोई नहीं  |
| Correct Answer       | D  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | Curved surface area of a hemisphere is        |
|----------------------|---|
|                      | एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? |
| Α                    | $3\pi r2$                                     |
|                      | $3\pi r2$                                     |
| В                    | $2\pi r^2$                                    |
|                      | $2\pi r^2$                                    |
| С                    | $4\pi r^2$                                    |
|                      | $4\pi r^2$                                    |
| D                    | $\pi r 2$                                     |
|                      | $\pi r 2$                                     |
|                      |   |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |
|                      |   |

| <b>Question Description</b> | x = 1 then find the value of $2x + 3$ -  |
|-----------------------------|--|
|                             | x = 1 तो $2x + 3$ का मान ज्ञात करो -   |
|                             |  |
| A                           | 5  |
|                             | 5  |
|                             |  |
| В                           | 6  |
|                             | 6  |
|                             | _  |
| С                           |  |
|                             |  |
| n                           | 8  |
| D                           | 8  |
|                             | o de la companya del companya de la companya del companya de la co |
| Correct Answer              | A  |
|                             |  |
| Marks                       | 2  |

| Question Description | If two angles of a triangle are 30 and 105, then the third angle will be यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण होगा |
|----------------------|--|
| Α                    | 75<br>75   |
| В                    | 45<br>45   |
| С                    | 65<br>65   |
| D                    | 60<br>60   |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | The area of an equilateral triangle is 9/3 sq cm, then what will be the length of one of its sides? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/3 वर्ग सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लम्बाई कितनी होगी? |
|----------------------|--|
| Α                    | 5 cm<br>5 सेमी   |
| В                    | 6 cm<br>6 सेमी   |
| С                    | 8 cm<br>8 सेमी   |
| D                    | 9 cm<br>9 सेमी   |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | The cost price of an article is ₹ 300 and the selling price is ₹ 200, then tell whether there is profit or loss? वस्तु का क्रय मूल्य ₹300 और विक्रय मूल्य ₹200 है, तो बताएँ कि लाभ हुआ या हानि? |
|----------------------|---|
| Α                    | Profit = ₹100<br>লਾਮ = ₹100   |
| В                    | Profit = ₹500<br>লਾਮ = ₹500   |
| С                    | Loss = ₹100<br>हार्म = ₹100   |
| D                    | Loss = ₹500<br>हार्म = ₹500   |
| Correct Answer       | С   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | The HCF of 2/3, 8/9, 64/81 and 10/27 is ? 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का एचसीएफ है ? |
|----------------------|---|
| A                    | 2/3<br>2/3  |
| В                    | 2/81<br>2/81  |
| С                    | 160/3<br>160/3  |
| D                    | 160/81<br>160/81  |
| Correct Answer       | В   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | In the following question series of numbers proceed from one rule, one number is missing in the series. The missing number is shown by a blank space. What number should come in the blank space of the series?  17, 15, 13, 11, 9, |
|----------------------|---|
| Α                    | 3<br>3  |
| В                    | 1<br>1  |
| С                    | 7<br>7  |
| D                    | 4 4   |
| Correct Answer       | C   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | Find out the odd word/letters/number/number pair from the given alternatives.<br>दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दअक्षरोंसंख्यासंख्या युग्म को ज्ञात<br>कीजिए। |
|----------------------|---|
| A                    | 84<br>84  |
| В                    | 26<br>26  |
| С                    | 78<br>78  |
| D                    | 91<br>91  |
| Correct Answer       | A A   |
| Marks                | 2   |

| Question Description | E is sister of B. A is the father of C. B is the son of C. Then how is A related to E? E, B की बहन है । A, C का पिता है । B, C का पुत्र है । तब A का E से क्या संबंध है? |
|----------------------|--|
| A                    | Grandpa<br>दादा  |
| В                    | Granddaughter<br>पौत्री  |
| С                    | Father<br>पिता   |
| D                    | Great Grandfather<br>पड़दादा   |
| Correct Answer       | A  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | If the code language for GIGANTIC is GIGTANCI, then the code for MIRACLES is-<br>यदि GIGANTIC के लिए सांकेतिक भाषा GIGTANCI हो तो, MIRACLES के लिए है- |
|----------------------|--|
| Α                    | MIRLCAES MIRLCAES  |
| В                    | MIRLACSE<br>MIRLACSE   |
| С                    | RIMCALSE<br>RIMCALSE   |
| D                    | RIMLCAES RIMLCAES  |
| Correct Answer       | В  |
| Marks                | 2  |

| Question Description | If water for the thirsty, then water for the hungry.<br>यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए |
|----------------------|---|
| Α                    | Cake<br>केक   |
| В                    | Bread<br>ब्रेड  |
| С                    | Meal<br>भोजन  |
| D                    | Lentils<br>दाल  |
| Correct Answer       | С   |
| Marks                | 2   |